

राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियाँ

भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ को राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार

भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ को वर्ष 2017-18 के दौरान 'ग' क्षेत्र में स्थित संस्थानों में राजभाषा की गतिविधियों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्थान को यह पुरस्कार 10 वीं बार प्राप्त हो रहा है। एन ए एस सी परिसर, नई दिल्ली में दिनांक 16 जुलाई, 2019 को आयोजित भा कृ अनु प स्थापना दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार का वितरण किया गया। डॉ.ए.गोपालकृष्णन, निदेशक एवं श्रीमती ई. के. उमा, मुख्य तकनीकी अधिकारी (हिन्दी) ने डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महा निदेशक, भा कृ अनु प से पुरस्कार प्राप्त किया।

हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2019

भा कृ अनु प – केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिनांक 13 से to 28 सितंबर 2019 तक विविध कार्यक्रमों से हिन्दी दिवस मनाया गया। इस दौरान विविध कार्यक्रमों जैसे कि हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिन्दी वर्ग पहेली, स्मृति परीक्षा, हिन्दी लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, बोलचाल की हिन्दी विषय पर कार्यशाला, आदि में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी उत्सुकता से भाग लिया।

हिन्दी पखवाड़ा के समापन समारोह की अध्यक्षता डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक, सी एम एफ आर आइ ने की।



डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भा कृ अनु प से डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक, सी एम एफ आर आइ और श्रीमती ई. के. उमा, मुख्य तकनीकी अधिकारी (हिन्दी) पुरस्कार ग्रहण करते हुए

श्री. एन. जयशंकर, आइ आर एस, आयकर आयुक्त समारोह में मुख्य अतिथि थे। श्री रघुनाथन के, प्रशासनिक अधिकारी ने सभा का स्वागत किया। श्री प्रशांत कुमार, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी ने हिन्दी पखवाड़ा समारोह के संबंध में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के संदेश का वाचन किया। हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं प्रोत्साहन योजना में भाग लिए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त स्थापना अनुभाग को राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गयी।

संस्थान के सभी क्षेत्रीय / अनुसंधान केन्द्रों में विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के साथ हिन्दी सप्ताह / पखवाड़ा आयोजित किया गया।

हिन्दी प्रोत्साहन योजना पुरस्कार

वर्ष के दौरान हिन्दी में मूल काम करने के लिए भारत सरकार और सी एम एफ आर आइ की प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत संस्थान के सात कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना पुरस्कार प्रदान किए गए- श्रीमती स्मिता के., वैयक्तिक सहायक, श्री ए. टी. सुनिल, सहायक, श्रीमती धन्या



डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक अध्यक्षीय भाषण देते हुए



मुख्य अतिथि श्री एन. जयशंकर, आइ आर एस सभा का संबोधन करते हुए



स्मृति परीक्षा का दृश्य



पुरस्कार वितरण



स्थापना अनुभाग को राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी प्रदान करने का दृश्य



प्रोत्साहन योजना पुरस्कार वितरण



एम. बी., आशुलिपिक, श्रीमती प्रीती उदयभानु, कुशल सहायक कर्मचारी और श्रीमती रिकु जोसफ, कुशल सहायक कर्मचारी को भारत सरकार योजना और श्रीमती श्रुती एस., कुशल सहायक कर्मचारी और श्रीमती जिनीमोल के. पी., कुशल सहायक कर्मचारी को सी एम एफ आर आइ योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी कार्यशालाएं

संस्थान के राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रमों में प्रमुख है हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन। हर तिमाही में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का प्रोत्साहन देने और हिन्दी बोलने की झिझक दूर करने के उद्देश्य से दिनांक 28 सितंबर और 19 दिसंबर, 2019 को हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

संस्थान मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी उत्सुकता से कार्यशालाओं में भाग लिया।

राजभाषा निरीक्षण

भा कृ अनु प, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण

डॉ. पी. प्रवीण, सहायक महानिदेशक (समुद्री मात्स्यिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को सी एम एफ आर आइ मुख्यालय, कोचीन और दिनांक 07 दिसंबर 2019 को मंडपम क्षेत्रीय केन्द्र में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों का निरीक्षण किया।

श्री एम. एल. गुप्ता, उपनिदेशक (रा भा) और श्री मनोज कुमार, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी (हिन्दी) ने



हिन्दी कार्यशालाओं का दृश्य



दिनांक 17 दिसंबर 2019 को सी एम एफ आर आइ मांगलूर अनुसंधान केन्द्र में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों का निरीक्षण किया।

निदेशक, सी एम एफ आर आइ द्वारा निरीक्षण

डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक, सी एम एफ आर आइ ने दिनांक 17 दिसंबर 2019 को मंडपम क्षेत्रीय केन्द्र में राजभाषा गतिविधियों का निरीक्षण किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त हिन्दी समारोह 2019

कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयुक्त हिन्दी समारोह 2019 के संदर्भ में हिन्दी गीत प्रतियोगिता दिनांक 25 नवंबर, 2019 को सी एम एफ आर आइ में आयोजित की गयी। कोच्ची न रा का स के सदस्य संगठनों से कई कार्मिकों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। संयुक्त हिन्दी समारोह 2019 में सी एम एफ आर आइ को दो पुरस्कार-हिन्दी गीत प्रतियोगिता में श्रीमती वन्दना वी., तकनीकी सहायक (हिन्दी अनुवादक) को प्रथम और डॉ. जे. जयशंकर, प्रधान वैज्ञानिक और श्री बिनीय भास्करन, तकनीकी सहायक को हिन्दी प्रश्नोत्तरी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

माहिक हिन्दी प्रतियोगिताएं

कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निदेशक महोदय ने संस्थान में आयोजित तिमाही बैठक में यह सुझाव दिया कि हर महीने में एक कार्यक्रम या प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इस दिशा में अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2019 महीनों के दौरान क्रमशः हिन्दी वार्तालाप, हिन्दी समाचार वाचन और हिन्दी भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। कार्मिकों ने बड़ी अभिरुचि से इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।



हिन्दी गीत प्रतियोगिता का दृश्य



हिन्दी वार्तालाप प्रतियोगिता